

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 430]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 जुलाई 2018—श्रावण 9, शक 1940

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2018

क्र. बी-8-8-2018-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-03-2016-क्रेडिट II, दिनांक 25 अप्रैल, 2018 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2018 के लिये अधिसूचित की जाने वाली फसलों की अधिसूचना मध्यप्रदेश के राजपत्र क्र. 20, दिनांक 18 मई 2018 में प्रकाशित की गई है. जिसमें आंशिक संशोधन जारी किया जाता है. संलग्न सूची अनुसार पटवारी हल्कों के समक्ष अंकित फसलों के लिये परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची  
निम्नलिखित पटवारी हल्कों को सम्मिलित किया जाता है ।

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2018-2019	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार						
					पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का
इन्दौर	इन्दौर										
		भिचौली-4									
			00059	दुधिया		-		सोयाबीन	-	-	-
	सांवेर	धरमपुरी-2									
			00039	मगरखेडा		-		सोयाबीन	-	-	-

निम्नलिखित पटवारी हल्के को विलोपित किया जाता है ।

इन्दौर	सांवेर	धरमपुरी-2									
			00037	कुमेडी		-			-	-	-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची  
निम्नलिखित पटवारी हल्कों के समक्ष दर्शाई गई फसलों को सम्मिलित किया जाता है ।

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2018-2019	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार सूची						
					पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का
जबलपुर	जबलपुर										
		खम्हरिया (बरेला)									
			0080	बरेला		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
	पनागर										
		पनागर									
			00013	लीटी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00015	नूनियाकला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00033	पडरी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
	पाटन										
		कटगी									
			00037	बिलखरवा	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		पाटन									
			00051	मेठी	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
	मझौली										
		पोडा									
			00071	गोरहा भिटौनी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-